

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 07.01.2023\***

**\*थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ माल एक बैटरी, एक ई रिक्शा चार्जर, व अवैध असलाह (तमंचा/कारतूस/चाकू) बरामद\* ।**

अवगत कराना हैं कि दिनांक 06.01.2023 को वादी श्री महिपाल सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुरा थाना अमरोहा देहात, अमरोहा की छोटा हाथी की बैटरी व ई रिक्शा का चार्जर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर पर थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0स0 06/23 धारा 379 भादवि बनाम 1. जोगिन्द्र पुत्र समरपाल 2. अजय पुत्र बलवीर निवासीगण हुसैनपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा पंजीकृत किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा के दिशा निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय अमरोहा के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 06.01.2023 को थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा सूचना पर अतरासी पुल के ढलान के पास से उपरोक्त दोनो अभियुक्त जोगिन्द्र व अजय को चोरी की गयी छोटा हाथी की बैटरी व ई रिक्शा का चार्जर के साथ गिरफ्तार किया । गिरफ्तार अभियुक्त अजय उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त जोगिन्द्र उपरोक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पर अभियोग पंजीकृत किये गये ।

**\*पूछताछ विवरण\*:-**

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि पैसा कमाने के लिये हमने गांव के हुसैनपुरा के रहने वाले महिपाल के घर के बाहर रात्रि में एक छोटा हाथी व एक ई रिक्शा खडा था, जिसकी हमने बैटरी व चार्जर चोरी कर लिया था साथ ही हम दोनो लोगो ने चौकी नन्हेडा क्षेत्र में दिनांक 01.12.2022 व 13.12.22 की रात्रि मे जंगल मे ट्युवेल से मोटर चोरी की थी ।



**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*:-**

1. जोगिन्द्र पुत्र समरपाल निवासी ग्राम हुसैनपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा
2. अजय पुत्र बलवीर निवासी ग्राम हुसैनपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा

**\*बरामदगी\*:-**

1. एक छोटा हाथी की बैटरी ।
2. एक ई रिक्शा का चार्जर ।
3. अवैध असलाह 01 तमंचा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू ।

**\*आपराधिक इतिहास अभियुक्त जोगिन्द्र\*:-**

1. मु0अ0स0 430/2022 धारा 380 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0स0 447/2022 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 006/23 धारा 379/411 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 007/23 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

**\*आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय\*:-**

1. मु0अ0स0 430/2022 धारा 380 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0स0 447/2022 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 006/23 धारा 379/411 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 007/23 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सतेन्द्र सिंह थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा
2. उ0नि0 श्री अतवीर सिंह चौहान थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
3. का0 1295 अमित वर्मा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. का0 353 शुभम पाल थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
5. का0 1339 राकेश कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***

